



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 731]  
No. 731]नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जुलाई 13, 2006/आषाढ़ 22, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, JULY 13, 2006/ASADHA 22, 1928

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2006

का.आ. 1088(अ).— भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालन और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए गए थे,

और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र के अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर उपर्युक्त अधिसूचना द्वारा लगाए गए निर्बंधनों के और द्वीप समूह में वैकल्पिक निर्माण सामग्री उपलब्ध न होने के कारण उक्त क्षेत्र के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सामनाकी जा रही कठिनाइयों की ओर केंद्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था।

और, भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इस मुद्रे की जाँच की गई है, और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन किया जाना चाहिए;

और, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप नियम (4) में यह उपबंध है कि उप नियम (3) में किसी बात के होते हुए भी जब कभी केंद्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है तो वह उक्त नियमों के उप नियम 5 के खण्ड (क) के अधीन रूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति दे सकेगी;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना में संशोधन हेतु उक्त नियमों के नियम 5 के उप-नियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः अब केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात :-

### उक्त अधिसूचना में

(क) पैरा 2 के उप पैरा (ix) के दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;

"बश्ते कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्र में निर्माण कार्यों के लिए मामला दर मामला आधार पर अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल द्वारा गठित समिति, जिसमें (1) मुख्य सचिव, अण्डमान निकोबार प्रशासन; (2) सचिव, पर्यावरण विभाग (3) सचिव, जल संसाधन विभाग और (4) सचिव, अण्डमान लोक निर्माण विभाग शामिल होंगे, द्वारा बालू खनन की अनुमति दी जा सकती है :

इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 2007 तक खनन की जाने वाली कुल बालू की मात्रा 22581 घन मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और यह कि बालू खनन केवल सामर प्रबंधन संस्थान, चैचई द्वारा संवर्धी क्षेत्रों के रूप अभिनिर्धारित किए गए क्षेत्रों में किया जाना चाहिए और यह बालू के पुनर्भरण या जमाव की दर पर आधारित होना चाहिए;

परन्तु यह और कि इस उप पैरा के अधीन बालू के खनन हेतु प्रदान की गई अनुमति खनन योजनाओं पर आधारित होनी चाहिए और संवेदी तटीय पारि प्रणाली, जिसमें प्रवालभित्ति या कछुए, मगरमच्छ, पक्षी सौसालों स्थाल और संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं, को हानि से बचाने के लिए पार्याप्त सुरक्षा उपाय निर्धारित किए जाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, यह कि अण्डमान निकोबार प्रशासन एक वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2007 तक वैकल्पिक निर्माण सामग्री को अभिनिर्धारित करेगा,

इसके अतिरिक्त, खनन कार्यों और संघ शासित प्रशासन द्वारा किए गए पर्यावरणीय उपायों की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की जानी चाहिए। निगरानी समिति में संघ शासित प्रशासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर और अण्डमान निकोबार के एक गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तिमाही निगरानी रिपोर्ट पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाएगी ;"

(ख) तटीय विनियम क्षेत्र IV अड़मान और निकोबार द्वीप रामूह शीर्ष के अधीन अनुबंध-। में मद (iv) की उप मद (ख) में 31 दिसम्बर, 2005 अंकों, और शब्दों के स्थान 31 मार्च 2007 अंक अक्षर 3 और शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जैड-12011/2/96आई ए-पा]

आर चन्द्रमोहन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: प्रमुख अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114(अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित की गई :—

- i. का.आ. 595(अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
- ii. का.आ. 73(अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997
- iii. का.आ. 494(अ), दिनांक 9 जुलाई, 1997
- iv. का.आ. 334(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1998
- v. का.आ. 873(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 1998
- vi. का.आ. 1122(अ), दिनांक 29 दिसम्बर, 1998
- vii. का.आ. 988(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 1999
- viii. का.आ. 730(अ), दिनांक 4 अगस्त, 2000

- ix. का.आ. 900(अ), दिनांक 29 सितम्बर, 2000
- x. का.आ. 329(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2001
- xi. का.आ. 988(अ), दिनांक 3 अक्टूबर, 2001
- xii. का.आ. 550(अ), दिनांक 21 मई, 2002
- xiii. का.आ. 1100(अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2002
- xiv. का.आ. 52(अ), दिनांक 16 जनवरी, 2003
- xv. का.आ. 460(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2003
- xvi. का.आ. 635(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- xvii. का.आ. 636(अ), दिनांक 30 मई, 2003
- xviii. का.आ. 563(अ), दिनांक 24 जून, 2003
- xix. का.आ. 838(अ), दिनांक 24 जुलाई, 2003
- xx. का.आ. 86(अ), दिनांक 25 जनवरी, 2005